


मासिक रिपोर्ट



अप्रैल 2024



नई फसल का मौसम शुरू होने से पहले हल्दी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में कटाई गतिविधियों की प्रगति ने कारोबारियों को अपना मुनाफा वसूल करने के लिए प्रेरित किया। एनसीडीईएक्स पर मार्च-24 में 19776 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, हल्दी वायदा का कारोबार उच्च स्तर से लगभग 13% गिरकर 17138 पर बंद हुआ। निर्यात मांग में गिरावट और नई फसल के बढ़ते आवक के दबाव के साथ आपूर्ति में वृद्धि की उम्मीद ने बाजार के सेंटीमेंट पर असर डाला। कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण मार्च-24 में हल्दी की हाजिर कीमतें 14% बढ़ गईं क्योंकि प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति सामान्य से नीचे रही।



आने वाले हफ्तों में हल्दी की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है क्योंकि कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। मौसम की स्थिति शुष्क रहने की संभावना है जिससे चल रही कटाई गतिविधियों में आसानी होने की संभावना है। पैदावार में गिरावट के बीच कम रकबे के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 16% गिरावट होने की संभावना है और यह 9.7-9.9 लाख टन के बीच रह सकता है। कुल आपूर्ति साल-दर-साल 14% घटकर 13.3 लाख टन होने की संभावना है। आगामी वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक कम रहने की संभावना है जिससे कीमतों में गिरावट पर अंकुश लगेगा। मौजूदा आपूर्ति की कमी के कारण स्टॉकिस्ट कीमतों में हर गिरावट पर हल्दी खरीदने के लिए आकर्षित हो सकते हैं।

## हल्दी की कीमतों में मासिक बदलाव

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
2024	-20	3066	-24	-408								
2023	-932	-172	-316	-128	1246	1884	5432	-204	-1064	-598	-628	1320
2022	420	-670	-584	-264	-592	-102	-126	-638	-206	410	-74	1094
2021	630	1748	188	-686	-6	-486	58	652	-704	-44	238	2096
2020	-606	44	-194	-206	-328	480	4	392	-372	52	-292	388

हल्दी की मौसमी कीमतों से पता चलता है कि आपूर्ति में वृद्धि के कारण अप्रैल के दौरान कीमतों में गिरावट होगी। हाल के महीनों में निर्यात की निराशाजनक रिपोर्ट से अत्यधिक बढ़त पर अंकुश लगने की संभावना है क्योंकि भारत से हल्दी निर्यात जनवरी-24 में 15% कम होकर 10.49 हजार टन रह गया, जबकि बांग्लादेश से कम खरीदारी के कारण अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 3.5% की गिरावट के साथ 131.6 हजार टन दर्ज किया गया। कीमतों में लगातार उछाल वैश्विक खरीदारों को आक्रामक खरीदारी से दूर रखेगा जिससे अत्यधिक बढ़त पर रोक लग सकती है।

## हल्दी का मासिक चार्ट



हल्दी की कीमतों के 15300-19700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।




आगामी सीजन में बंपर फसल की संभावनाओं के बाद मार्च-24 में जीरा वायदा की कीमतों में गिरावट जारी रही। सुस्त घरेलू खरीदारी और आपूर्ति में बढ़ोतरी की उम्मीद से बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ा। मार्च-24 में जीरा की कीमतों में 5% की गिरावट हुई और यह 23600 पर बंद हुई। बाजार वर्ष 2024-25 में जीरा के तहत उत्पादन क्षेत्र के महत्वपूर्ण विस्तार के कारण जीरा का उत्पादन साल-दर-साल 30% बढ़कर 815 हजार टन होने का अनुमान है। अनुकूल मौसम की स्थिति और खेती की लागत से बेहतर वसूली ने किसानों को बाजार वर्ष 2024-25 के लिए जीरा के तहत रकबा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। रबी की फसल होने के कारण, जीरे की कटाई मार्च में की जाती है और अगले महीने में कटाई की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। आने वाली बंपर फसल को ध्यान में रखते हुए, आने वाले महीनों में कुल आपूर्ति अधिक होने की संभावना है, जो कीमतों में बड़ी बढ़त को सीमित कर देगी।

## जीरा की कीमतों में मासिक बदलाव

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
2024	-3885	-2365	-1145	840								
2023	1375	-590	3600	8130	795	10445	4240	-4390	5040	-16155	900	-13615
2022	3210	1685	380	355	-690	115	2480	1365	-570	-725	830	6530
2021	770	40	1235	-810	-135	-385	-95	1155	190	335	1015	275
2020	-2145	-420	445	210	-785	95	470	125	-510	735	-660	-1140

बंपर उत्पादन की संभावनाएं और नई फसल की शुरुआत से कीमतें गिरावट दर्ज कर सकती हैं। गुजरात और राजस्थान में शुष्क मौसम की स्थिति के कारण कटाई गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है जिससे आपूर्ति में वृद्धि होगी। स्टॉकिस्टों की सक्रिय खरीदारी के बीच बेहतर निर्यात संभावनाओं के कारण गिरावट सीमित होने की संभावना है। सीरिया और तुर्की में कम उत्पादन के कारण वैश्विक आपूर्ति कम हो गई है, जिससे हाल के महीनों में भारतीय जीरा निर्यात को बढ़ावा मिला है। भारत ने जनवरी-24 में 12.4 हजार टन जीरा निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 8.04 हजार टन था, जो साल-दर-साल 54% अधिक है। वर्ष 2024 में भारत में जीरा का उत्पादन साल-दर-साल 30% बढ़ने की उम्मीद है। जीरा की कीमतों के 21500-30000 के बीच कारोबार करने की संभावना है।

## भारत से जीरा निर्यात ( 1000 टन में )



## जीरा का मासिक चार्ट




आने वाले हफ्तों में जीरा की कीमतों के 21000-30000 के बीच रहने की संभावना है।

# धनिया

कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ मार्च-24 में धनिया की कीमतों में तेजी आई। कमजोर घरेलू मांग ने बाजार के सेंटिमेंट पर असर डाला। मार्च-24 के अंत तक एनसीडीईएक्स पर धनिया वायदा कारोबार माह-दर-माह 5% कम होकर 7608 पर आ गया। आगामी सीजन के लिए कमजोर आपूर्ति अनुमान के कारण धनिया की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार होने की उम्मीद है। धनिया के तहत कम रकबा और उपज में कमी की रिपोर्ट से वर्ष 2024-25 में धनिया का कुल उत्पादन कम हो सकता है। रकबे में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी होने की संभावना है और कुल उपज साल-दर-साल 13% की गिरावट के साथ 7.37 लाख टन रह सकती है।

## धनिया की कीमतों में मासिक बदलाव

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
2024	480	276	-392	152								
2023	-264	-540	-622	-170	-118	288	1134	-742	-262	420	1008	-994
2022	1302	802	294	984	-1002	166	464	-450	-382	26	-1330	-1566
2021	326	988	-72	-358	140	-148	110	1280	-268	214	478	246
2020	-362	-576	-95	63	-266	656	70	624	-182	-50	-372	-508



मजबूत निर्यात मांग से भी धनिया की कीमतों को सकारात्मक रुझान पर कारोबार करने में मदद मिली। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान लगभग 83.6 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में साल-दर-साल 215% अधिक है। कमजोर आपूर्ति अनुमान के कारण धनिया में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है क्योंकि क्षेत्र और उपज में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी होने की संभावना है। कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आवक बढ़ने की उम्मीद है।

## धनिया को मासिक चार्ट



धनिया की कीमतों के 7300-8400 के दायरे में रहने की संभावना है।

वंदना भारती	एवीपी कमोडिटी रिसर्च	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 625	vandanabharti@smcindiaonline.com
रवि पाण्डेय	सीनियर रिसर्च एनालिस्ट	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 674	ravi16@smcindiaonline.com
शिवानन्द उपाध्याय	रिसर्च एसोसिएट	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 646	shivanand@smcindiaonline.com

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार को जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशांसात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएसएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधि एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सब्सक्रिप्शन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विस्तृत सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में चिह्नित किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पॉजिशन हो सकती है और यह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकार में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा।